

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2469]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 4, 2014/अग्रहायण 13, 1936

No. 2469]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 4, 2014/AGRAHAYANA 13, 1936

आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, सिद्ध, यूनानी एवं होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 2014

का.आ. 3063(अ).—केंद्रीय सरकार, होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् (निर्वाचन) नियम, 1975 के नियम 2 के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में, श्रीमती के. लीलावती, केएएस (वरिष्ठ वेतनमान), मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, आयुष विभाग, कर्नाटक सरकार को कर्नाटक राज्य के संबंध में उक्त नियमों के प्रयोजनार्थ रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त करती है।

[फा.सं. जेड.-28016/16/2011-एचपीसी/सीसीएच निर्वाचन]

राज प्रताप सिंह, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND
HOMOEOPATHY (AYUSH)**

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd December, 2014

S.O. 3063(E).—In pursuance of the powers conferred by clause (d) of rule 2 of the Homoeopathy Central Council (Election) Rule, 1975, the Central Government hereby appoints Smt. K. Leelavathi, KAS (Sr. Scale), Chief Administrative Officer, Department of AYUSH, Government of Karnataka, to be the Returning Officer for the purposes of the said rules in respect of the State of Karnataka.

[F. No. Z-28016/16/2011-HPC/CCH Election]

RAJ PRATAP SINGH, Jt. Secy.

4789 GI/2014